



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1939)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. राज्यपाल महोदया का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब सदन राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा करेगा. पूर्वाह्न 11.16 बजे श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन एवं आसन ग्रहण हुआ.

3. अध्यक्षीय घोषणा

राज्यपाल महोदया द्वारा अभिभाषण को पढ़े जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय राज्यपाल महोदया अभिभाषण के पैरा क्रमांक 1 से 8, 10 से 15, 17 से 72, 75 से 81, 86 से 90, 94, 97, 101, 105, 108, 109, 118 से 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135 एवं 139 सदन में पढ़ेंगी. शेष अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जायेगा.

4. राज्यपाल महोदया का अभिभाषण (क्रमशः)

राज्यपाल महोदया द्वारा अभिभाषण के पश्चात् पूर्वाह्न 11.37 बजे राज्यपाल महोदया ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया.

5. राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :-

'राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं'

डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य ने इसका समर्थन किया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिए बुधवार, दिनांक 7 मार्च एवं गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2018 का समय नियत किया गया. तदनुसार, घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018 को अपरान्ह 4 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दिये जा सकते हैं.

पूर्वाह्न 11.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018 (8 फाल्गुन, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.